



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

लखनऊ, गुरुवार, दिनांक 07 जुलाई, 2022

16 आषाढ़, शक सम्वत् 1944

विधान परिषद् सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या-534/वि०प०-23सं०/98

लखनऊ, दिनांक 07 जुलाई, 2022

अधिसूचना

विविध

एतद्वारा सर्वसाधारण को यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 27 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदन में समाजवादी पार्टी अपनी सदस्य संख्या-11 के साथ सबसे बड़ा विरोधी दल था और गणपूर्ति हेतु सक्षम था। जिसके अनुसार उस दल के सदस्य श्री लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल की मान्यता प्रदान की गयी थी।

चूंकि, आज दिनांक 07 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदन में समाजवादी पार्टी की सदस्य संख्या-09 है, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-234 के अनुसार गणपूर्ति की संख्या-10 से न्यून है,

इसलिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में मुख्य विरोधी दल समाजवादी पार्टी के श्री लाल बिहारी यादव, जो नेता विरोधी दल के पद पर आसीन हैं, को मा० नेता विरोधी दल की दी गयी मान्यता को माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उन्हें सदन में समाजवादी पार्टी के दल के नेता बनाये रखा गया है।

आज्ञा से,

डा० राजेश सिंह,

प्रमुख सचिव।